



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 22—अक्टूबर 28, 2005 (आश्विन 30, 1927)
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22—OCTOBER 28, 2005 (ASVINA 30, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1025	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1005	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	13	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1929	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1025	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1005	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	13	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1929	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1665
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	541
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	2459
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	297
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folio not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2005

सं.ए-11019/1/2000-प्रशा. III (वि.का.:-आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 255 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अपील अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तारीखों से उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत करती है:--

क्र.सं. सदस्य का नाम	एस.एम.सी. शक्तियां सौंपने की तारीख
सर्वश्री	
1. भवनेश सैनी न्यायिक सदस्य	07.08.2005
2. प्रमोद कुमार लेखा सदस्य	21.07.2005
3. मुकुल के. शरावत न्यायिक	04.08.2005
4. जी.एस. पन्नु लेखा	14.09.2005
5. टी.आर. सूद लेखा	03.10.2005
6. जोगिंदर सिंह न्यायिक सदस्य	24.07.2005

वी. एम. रत्नम, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्टूबर 2005

सं. 5(1) पी.डी./2005--आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2005-06 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 8% (आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष ही रहेगी। यह दर दिनांक 1.04.2005 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:--

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)

3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।

4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।

5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।

6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।

7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।

8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।

9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।

10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।

11. नई पेंशन प्रणाली (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना)।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनुराधा प्रसाद, निदेशक (बजट)

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

संकल्प

सं. 23011/42/2005-सीपीडी--इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 21.2.1986 के आदेश सं. पी.वी.-4(5)/85 का अधिक्रमण करते हुए, स्पाँज आयरन यूनिटों के लिए दीर्घावधि कोयला लिंकेज का निर्णय लेने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

स्पाँज आयरन यूनिटों के लिए स्थायी लिंकेज समिति का गठन नीचे दिए अनुसार होगा:--

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अपर सचिव (कोयला) | - | अध्यक्ष |
| 2. सलाहकार (ऊर्जा योजना आयोग) | - | सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय (दीर्घावधि कोयला लिंकेज के कार्य से सम्बद्ध) | - | सदस्य |
| 4. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय | - | सदस्य |

- | | | |
|--|---|-------|
| 5. कार्यकारी निदेशक, यातायात परिवहन (इस्पात), रेल मंत्रालय | - | सदस्य |
| 6. अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड | - | सदस्य |
| 7. कोयला उत्पादक कंपनियों के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक | - | सदस्य |
| 8. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. | - | सदस्य |

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, राज्य सरकारों, अध्यक्ष, सीआईएल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, एनसीएल, सीएमपीडीआईएल, एससीसीएल को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रिचन टेम्पो, निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2005

सं. ई आर बी-1/2004/23/25--रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 27.09.2005 के समसंख्यक आदेश के तहत अध्यक्ष, यात्री सुविधा समिति के पद से श्री मोहम्मद इलियास हुसैन के त्यागपत्र को 27.09.2005 से स्वीकार करते हुए, भारत सरकार (रेल मंत्रालय) ने विनिश्चय किया है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 18.07.2005 के संकल्प सं. ईआरबी-1/2004/23/25 के अधीन गठित यात्री सुविधा समिति को 27.09.2005 से भंग किया जाए।

एम. के. अग्रवाल, सचिव, रेलवे बोर्ड

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. एम. नारायणन, संयुक्त सचिव (राज.), रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 29th September 2005

No. A-11019/1/2000-Admn.III (LA).—In pursuance of sub-section (3) of Section 255 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorizes the following Members of the Income Tax Appellate Tribunal for the purpose of the said sub-section with effect from the dates mentioned against each of them :—

Sl. No.	Name of the Member	Date on which SMC powers conferred
	S/Shri	
1.	Bhavnes Saini Judicial Member	07.08.2005
2.	Pramod Kumar Accountant Member	21.07.2005
3.	Mukul K. Shrawat Judicial Member	04.08.2005
4.	G. S. Pannu Accountant Member	14.09.2005
5.	T. R. Sood Accountant Member	03.10.2005
6.	Joginder Singh Judicial Member	24.07.2005

V. M. RATHNAM, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 7th October 2005

RESOLUTION

No. F.5(1)-PD/2005.—It is announced for general information that during the year 2005-2006, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall continue to carry interest at the rate of 8% (Eight per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 1.4.2005. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.

7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
11. New Pension System (Defined Contribution Pension Scheme).

2. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

ANURADHA PRASAD, Director (Budget)

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 3rd October 2005

RESOLUTION

No. 23011/42/2005/CPD.—It has now been decided to constitute a Committee under the Chairmanship of Additional Secretary (Coal) for deciding the long term coal linkages for Sponge Iron Units in supersession of Ministry of Steel, Government of India Order No.PV-4(5)/85 dated 21.02.1986.

The composition of the Standing Linkage Committee for Sponge Iron Units will be as under:—

- | | | |
|---|---|----------|
| (1) Additional Secretary (Coal) | — | Chairman |
| (2) Adviser (Energy) Planning Commission. | — | Member |
| (3) Joint Secretary, Ministry of Coal (dealing with long term coal linkages). | — | Member |
| (4) Joint Secretary Ministry of Steel | — | Member |
| (5) Executive Director, Traffic Transport (Steel), Ministry of Railways | — | Member |
| (6) Chairman, Coal India Limited. | — | Member |
| (7) Chairman-cum-Managing Directors of Coal Producing Companies. | — | Member |
| (8) Chairman-cum-Managing Director, Singareni Collieries Company Limited. | — | Member |

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat, State Governments,

Chairman, CIL, CMDs, BCCL, CCL, ECL, WCL, SECL,
MCL, NCL, CMPDIL, SCCL.

Ordered also that the Resolution be published in the
Gazette of India for general information.

RINCHEN TEMPO
Director

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th September 2005

RESOLUTION

No. ERB-I/2004/23/25.—With the acceptance of
resignation of Sri Mohd. Ilyas Hussain from the post of

Chairman, Passenger Amenities Committee w.e.f. 27.9.2005
vide Ministry of Railways (Railway Boards') order of even
number dated 27.9.2005, the Government of India (Ministry
of Railways) have decided to dissolve the Passenger
Amenities Committee constituted under Ministry of Railways
(Railway Boards') Resolution No. ERB-I/2004/23/25
dated 18th July, 2005 w.e.f. 27.9.2005.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette
of India for General information.

M. K. AGARWAL
Secy., Railway Board